

भाजपा का निष्क्रिय मीडिया सेल फिर से होगा सक्रिय – श्रीकान्त शर्मा की जगह लेंगे डॉ संवित पात्रा !

By : INVC Team Published On : 2 Aug, 2014 12:10 PM IST

✘आई एन वी सी , दिल्ली , भाजपा मुख्यालय में स्थित भाजपा के निष्क्रिय मीडिया डिपार्टमेंट को दुरुस्त करने की कवायत शुरू हो गयी है ! भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डिपार्टमेंट को पूरी तरह से दुरुस्त करने का मन बना लिया है और इसी कवायत के चलते जहाँ एक ओर भाजपा मीडिया प्रभारी श्रीकान्त शर्मा की छुट्टी अब तय हो गयी है तो दूसरी ओर संघ की हरी झंडी के बाद अब भाजपा के तेज़ तरार दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता डॉ संवित पात्रा को भाजपा मीडिया डिपार्टमेंट का नया मुखिया बनाए जाने का रास्ता एक दम साफ़ हो गया है ! अगर सूत्रों की माने तो भाजपा अध्यक्ष की काफी दिनों से इस डिपार्टमेंट पर पैनी नज़र थी क्योंकि भाजपा अध्यक्ष को काफी समय से इस बात की शिकायतें मिल रही थी की भाजपा मीडिया डिपार्टमेंट न सिर्फ़ अपने काम में काफी ढिलाई बरतता है बल्कि भाजपा मुख्यालय की बहुत सारी ऐसी बातें भी लीक कर देते हैं जिससे ✘मीडिया के साथ साथ विपक्ष को शोर मचाने का पूरा मौका मिल जाता है गौरतलब है की नितिन गडकरी का पूर्ति मामला, गडकरी नहीं बनेंगे फिर अध्यक्ष, संगठन मंत्री रामलाल का निष्क्रिय होने की खबर, राजनाथ से ताकतवर अरूण जेटली, संघ ने किया मोदी से किनारा, राजनाथ बनेंगे प्रधानमंत्री आदि आदि ये सभी सुर्खियां भाजपा के मीडिया सेल ही लीक हुई थी ! जिससे भाजपा की छुट्टी को काफी नुकसान हुआ था ! इस तरह के तमाम खबरों का भाजपा मीडिया सेल से लीक होना अब मीडिया प्रभारी के लिये भारी मुसीबत का सबब बन गया है। अगर सूत्रों की माने तो श्रीकान्त शर्मा अमित शाह को मनाने के लिये कुछ बड़े पत्रकारों को साथ लेकर अमित शाह से मिलने गये थे पर अमित शाह ने श्रीकान्त के साथ साथ इन सभी तथाकथित बड़े पत्रकारों से भी मिलने से मना कर दिया था ! ✘ अब अमित शाह ने भाजपा के मीडिया सेल पूरी तरह से दुरुस्त करने का मन बना लिया है जिसे संघ ने भी हरी झंडी दे दिया है। विश्वस्त सूत्रों से मिली खबरों के अनुसार मीडिया प्रभारी श्रीकान्त शर्मा पर लोकसभा चुनाव के दौरान जहाँ-जहाँ मोदी जी की रैली होती थी वहाँ-वहाँ आर्थिक अनियमितता का भी आरोप लगा है साथ ही भाजपा का मीडिया सेल भाजपा मुख्यालय में होने वाली किसी भी पत्रकार वार्ता की प्रेस रिलीज़ भेजने में भी पूरी तरह अक्षम है और एक दम सुस्त रहा है ! भाजपा मुख्यालय में होने वाली सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिर्फ़ सूचना पत्रकारों को प्राप्त होती रहीं हैं न की पूरी प्रेस रिलीज़ जबकि एक वक्त था जब भाजपा मुख्यालय में होने वाली हर छोटी बड़ी सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर नुमा प्रेस रिलीज़ पत्रकारों के साथ साथ सभी मीडिया दफ्तरों तक पहुँच जाती थी ! गौरतलब है भाजपा के ऊपर गुजरात 2002 के दंगों के दाग लगे थे पर उस वक्त का भाजपा मुख्यालय का मीडिया सेल पूरे मेहनत के साथ अपने काम में जुटा था अगर ऐसे पत्रकारों की माने जिन्होंने भाजपा एक लम्बे वक्त तक कवर की है तो उनका कहना है की 2009 - 2010 तक दौर भाजपा मीडिया सेल का सुनहरा दौर था जब हर छोटी बड़ी घटना की पूरी खबर नुमा प्रेस रिलीज़ हर पत्रकार की मेल में पडी होती थी फोटो के साथ पर अब भाजपा का मीडिया सेल सिर्फ़ SMS करने के सिवा सिर्फ़ चाय पानी पिलाने का काम करता है !

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/भाजपा-का-निष्क्रिय-मीडिय/>